

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

जनवरी, 2022 महीने की प्रमुख उपलब्धियां

सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं

जनवरी, 2022 में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं:

1. जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर 343.00 करोड़ रु के अनुमानित निवेश से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर उथले पानी की बर्थ (एसडब्ल्यूबी) सुविधा और नवनिर्मित तटीय बर्थ (सीबी) के उन्नयन, सज्जीकरण, प्रचालन, रखरखाव तथा अंतरण करना।
2. विशाखापट्टणम पत्तन के आंतरिक बंदरगाह के उत्तरी भाग में 165.70 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से ड्राई बल्क कार्गो की संभलाई के लिए डीबीएफओटी आधार पर मौजूदा वेस्ट क्वे-6 (डब्ल्यूक्यू-6) टर्मिनल का पुनर्निर्माण करना।

पत्तन निष्पादन

1. कोचीन पत्तन ने वर्ष 2021-22 (अप्रैल-जनवरी) में वर्ष 2020-21 की समान अवधि, जब कोविड-19 महामारी ने थ्रूपुट को प्रभावित किया था, की तुलना में 14.47% की वृद्धि के साथ 28.24 एमएमटी कुल थ्रूपुट दर्ज किया।
2. भारत के कंटेनर पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन ने कलेंडर वर्ष 2021 में कार्गो संभलाई में अपनी सतत वृद्धि बरकरार रखी, इसने पिछले कलेंडर वर्ष की तुलना में 25.86% वृद्धि के साथ कलेंडर वर्ष 2020 में 4.47 मिलियन टीईयू (4,474,878 टीईयू) की तुलना में इस वर्ष 5.63 मिलियन टीईयू (5,631,949 टीईयू) के कुल कंटेनर यातायात की संभलाई की। 76.14 मिलियन टन कुल यातायात और 5.63 मिलियन टीईयू का कंटेनर यातायात, इस पत्तन की स्थापना के बाद एक वर्ष में संभाला गया सबसे अधिक यातायात था।

पोत परिवहन क्षेत्र

1. भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति श्री एम. वैकैया नायडु ने दिनांक 02.01.2022 को भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाए जा रहे पहले देशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत का दौरा किया।
2. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने दिनांक 25.01.2022 को जेएसडब्ल्यू शिपिंग एवं लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के लिए बनाए जा रहे 8,000 डीडब्ल्यूटी के एक मिनी बल्क कैरियर का अंतिम समुद्री परीक्षण पूरा किया।

अंतर्देशीय जल परिवहन

इस वर्ष अभीतक राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो आवागमन सतत रूप से उत्साहवर्धक रह। पिछले वर्ष की समान अवधि के 54.48 मिलियन टन की तुलना में 40.7% वृद्धि के साथ अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान 76.65 मिलियन टन की उपलब्धि हासिल की गई।